

PGIL/SE/2023-24/32

Date: July 9, 2023

THE GENERAL MANAGER,

DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES - CRD BSE LIMITED 1<sup>ST</sup> FLOOR, NEW TRADING RING ROTUNDA BUILDING, P. J. TOWERS DALAL STREET, FORT, MUMBAI – 400 001

Scrip Code:

Dear Sir/Madam.

BSE-532808

THE GENERAL MANAGER,

LISTING DEPARTMENT
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA
LTD.

"EXCHANGE PLAZA", PLOT NO. C- 1, G- BLOCK, BANDRA - KURLA COMPLEX, BANDRA (E), <u>MUMBAI - 400 051</u>

**NSE - PGIL** 

Sub: Newspaper Publication for 34<sup>TH</sup> Annual General Meeting (AGM) Notice and e-voting information

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of Notice of 34<sup>th</sup> AGM and e-voting information published in Financial Express (English-All Editions) and Jansutta (Hindi-Delhi Edition) Newspapers, dated July 9, 2023, in Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time.

The above is for your kind information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully, for **Pearl Global Industries Limited** 

(Shilpa Budhia)
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI M. No.: ACS-23564

Encl.: As above

# Pearl Global Industries Limited

Corp. Office: Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32, Gurugram – 122001, Haryana (India)

T: +91-124-4651000 | E: info@pearlglobal.com

CIN: L74899DL1989PLC036849

Regd. Office: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi - 110057

**FE SUNDAY** 

SUNDAY, JULY 9, 2023

# PEARL GLOBAL

# PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Corporate Office: Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32, Institutional Area, Gurugram-122001, Haryana. Email: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

# NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

# NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

 The 34th Annual General Meeting (AGM) of Pearl Global Industries Limited will be held on Monday. July 31, 2023 at 5:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, without physical presence of members

In accordance with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI Circular no. SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated January 05, 2023 and other relevant Circulars previously issued by MCA, notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23, inter-alia including the e-voting instructions has been e-mailed on July 08, 2023 to the Members, whose e-mail address are registered with the Company or with the Depository Participants. These documents can be downloaded from the website of the Company https://www.pearlglobal.com/investor-relations/annual-reports/, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") https://www.evoting.nsdl.com/.

- Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and MCA Circulars, the Company is providing remote e-voting facility and e-voting during AGM through NSDL.
- 3. The e-voting facility is being provided to the Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. Monday, July 24, 2023 to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting at the AGM on any or all of the businesses specified in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting at AGM are mentioned in the Notice of AGM.
- Date and time of Start and ending of e-voting:

at investor.pgil@pearlglobal.com.

Start	: Friday, July 28, 2023 (9:00 A.M. IST)
Ending	: Sunday, July 30, 2023 (5:00 P.M. IST)

- The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 P.M. on Sunday, July 30, 2023. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but are not entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- Any person who have acquired shares and become members of the Company after sending Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Monday, July 24, 2023, may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting at AGM as mentioned in the Notice of AGM.
- In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at

For Pearl Global Industries Limited

Shilpa Budhia Place: Gurugram Company Secretary ICSI M.NO.:ACS-23564 Date: July 8, 2023

the download section of <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

or send a request to Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or Members may write to the Company



# **DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS LIMITED**

CIN: U32201MH1964PLC013085

Registered Office: Plot no. 75, General Block, MIDC Bhosari, Pune, MH - 411026 Tel.: +91-20-6311-0114, Email: companysecretary@divgi-tts.com, Website: https://divgi-tts.com/

# NOTICE OF 58™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 58° (Fifty Eighth) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Divgi TorgTransfer Systems Limited ("the Company") will be held on Monday, July 31, 2023 at 3.00 PM IST at Auto Cluster Exhibition Centre- H-Block, Chinchwad East, 181, Old Mumbai - Pune Hwy, MIDC, Chinchwad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411019, to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules thereunder and provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended March 31, 2023 have been circulated by the Company through electronic mode on Saturday, July 08, 2023 only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant(s). The aforesaid documents are available on the website of the Company at https://divgi-tts.com/annual-reports/ and the websites of the Stock Exchanges viz. https://www.nseindia.com/ and https://www.bseindia.com/. The Notice of the 58" AGM is also available on the website of Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in/

The documents referred to in the Notice and Explanatory Statement will be available for inspection in electronic mode from date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members are requested to write to the Company on companysecretary@divgi-tts.com for inspection of the said documents.

CS Mrunmayee Sathaye (Membership No. A51169, C.P. No: 19264), Partner M/s. Kanj & Co. LLP, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the entire e-voting in a fair and transparent manner.

Instructions for Remote e-voting and voting during the AGM: In compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility to exercise their vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the AGM and the Company has appointed Link Intime India Private Limited (LIIPL) to facilitate voting through electronic means. Members holding shares as on the "Cut-off date" i.e. Monday, July 24, 2023, are eligible to cast their votes electronically through electronic voting systems ("Remote e-voting") of LIPL at https://instavote.linkintime.co.in/ and through the electronic voting system that will be provided at the venue of the

# The detailed instructions for Remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to

- a. The ordinary and special business, as set out in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means only;
- The Remote e-voting period commences on Friday, July 28, 2023 (9.00 A.M. IST) and ends on Sunday, July 30, 2023 (5.00 P.M. IST). Remote e-voting module will be disabled after 5.00 P.M. (IST) on July 30, 2023. Once the vote on a resolution has been cast, the Members will not have the option to modify it subsequently. The voting rights of Members shall be proportionate to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date i.e., Monday, July 24, 2023.
- c. The facility of E-voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not cast their vote by Remote e-voting shall be eligible to cast their vote through the e-voting facility provided at the venue of the Meeting. The Members who have cast their vote(s) by Remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.
- d. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and is holding shares as of the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request at rnt.helpdesk@linkintime.co.in However, if any Member is already registered with LIIPL for e-voting, such member may use their existing User ID and Password for casting their vote on the matters mentioned in the Notice of the AGM. A person who is not a Member as on the Cut-Off date should treat this Notice of AGM for information purpose only.
- In case of any queries/ grievances connected with Remote e-voting and e-voting during the meeting, any person may refer the Frequently Asked Questions (FAQS) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the download section of https://instavote.linkintime.co.in/. Individual Shareholders holding securities in demat mode may, for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL, refer to the following:

Login Type	Helpdesk details	
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDI Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022 23058738 or 022-23058542/43	

It is hereby informed that the Share Transfer Books and Register of Members of the Company shall remain closed from Tuesday, July 25, 2023 to Monday, July 31, 2023 for the purpose of payment of final dividend to the shareholders, recommended by the Board of Directors of the Company in its Meeting held on Thursday, May 18, 2023, subject to approval of shareholders in the Annual General Meeting.

Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective Depository Participants. In case of any queries/difficulties in registering the e-mail address, members may write to companysecretary@divgi-tts.com. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, any concerned person may contact Ms. Sanika Nirgude (Company Secretary and Compliance Officer) at companysecretary@divgi-tts.com or at 020-6311-0114

For Divgi TorgTransfer Systems Limited

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA (A Government of India Undertaking Miniratna Category-II Company) (Under Ministry of Social Justice & Empowerment) (An ISO 9001:2015 Company)

G.T. Road, Naramau, Kanpur-209217 U.P. Phone No. (0512) 2770088, Toll Free No. 1800 180 5129 Email: pd\_ha@alimco.in, pd.office@alimco.in Website: www.alimco.in

E-PROCUREMENT OPEN TENDER NOTICE

The Corporation intends to carry out following job works through outsourcing as per our drawings in the Corporation premises at Kanpul

SI No.	Tender No.	Job Description	Approx. Value
01	PD/OT/01/BB	Insourcing Wheel Assemblies of Tricycles, Wheelchairs & MTC's and Cutting & Bending of MS/Al.Tubes & Final Axilla Assembly & Drilling Holes & CSK Assembly work	Rs. 1.84 Cr

Website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app for details. No furthe corrigendum notice shall be published in the news papers and the interested parties have to visit NIC CPP Portal/Corporation's website for any updates if any. Due date of bid submission of tenders is 31 /07/2023. For ALIMCO - DGM (PRODUCTION)

Interested Tenderers may visit our website www.alimco.in or CPPP



Bids are invited for works given below in various zones as per details given :-

No: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-I/2023-24/D-73 Dated: 07.07.2023

NOTICE INVITING BID

NIB No.: EE & TA to Dir.Engg.-I/14/2023-24

S. No.	Zone	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	Nature of Work	Last Date
1.	EE- Garden-II	JDA2324WSOB00269	205.75	Development Works in Nahargarh Biological Park	27.07.2023

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in. Executive Engineer &

TA to Dir.Engg-I Rai\_Samwad/C/23/5375

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA



(Please scan this QR Code to view the Draft Red Herring Prospectus)

# **SBFC**

# SBFC FINANCE LIMITED

the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"). The Board of our Company approved the change in the name of our Company from 'MAPE Finserve Private Limited' to 'Small Business Fincredit India Private Limited by their resolution dated July 3, 2017, which was thereafter approved by the Shareholders of our Company through their resolution dated August 24, 2017 and a fresh certificate of incorporation, under the Companies Act, 2013, was issued by the RoC on August 31, 2017. Thereafter, the Board of our Company approved the change in the name of our Company from 'Small Business Fincredit India Private Limited' to 'SBFC Finance Private Limited' by their resolution dated October 24, 2019, for the ease of reference that a shorter name provides, which was thereafter approved by the Shareholders of our Company through their special resolution dated December 11, 2019 and a fresh certificate of incorporation, under the Companies Act, 2013, was issued by the RoC on January 13, 2020. Subsequently, our Company was converted into a public limited company under the Companies Act, 2013 and consequently the name of our Company was changed from 'SBFC Finance Private Limited' to 'SBFC Finance Limited' pursuant to a resolution passed by the Board of our Company on September 21, 2022 and a special resolution passed by the Shareholders of our Company on September 23, 2022, and a fresh certificate of incorporation dated September 30, 2022 was issued by the RoC. For details of the change in the name and the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 231 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 21, 2023 replacing the Previous DRHP in its entirely ("DRHP"), filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 21, 2023.

Corporate Identity Number: U67190MH2008PLC178270

Registered and Corporate Office: 103, 1" Floor, C&B Square, Sangam Complex, Andheri Kurla Road, Village Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 059, Maharashtra, India Contact Person: Jay Mistry, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 22 6787 5344; E-mail: complianceofficer@sbfc.com; Website: www.sbfc.com

# THE PROMOTERS: SBFC HOLDINGS PTE. LTD., CLERMONT FINANCIAL PTE. LTD., ARPWOOD PARTNERS INVESTMENT ADVISORS LLP, ARPWOOD CAPITAL PRIVATE LIMITED AND EIGHT45 SERVICES LLP

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SBFC FINANCE LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF UP TO ₹ [\*] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF UP TO ₹ [\*] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 12,000 MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 7,500 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY SBFC HOLDINGS PTE, LTD., ARPWOOD PARTNERS INVESTMENT ADVISORS LLP, ARPWOOD CAPITAL PRIVATE LIMITED AND EIGHT45 SERVICES LLP ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") (AGGREGATING UP TO ₹ 4,500 MILLION ("OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [•] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, FORSUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES NOT EXCEEDING 5% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE (\*)% AND (\*)%, RESPECTIVELY, OF THE FULLY DILUTED POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, OUR COMPANY, AT THE DISCRETION OF THE COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, MAY CONSIDER ISSUING EQUITY SHARESON A PRIVATE PLACEMENT BASIS FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 1,500 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRICE OF THE EQUITY SHARES ALLOTTED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE DETERMINED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR").

# NOTICE TO INVESTORS

This is in relation to the directive dated July 4, 2023, issued through e-mail from SEBI pursuant to which, we are required to send intimation to the Stock Exchanges and make the public announcement in the event our Company has undertaken pre -IPO placement and transfer of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up Equity Share capital of our Company by our Promoters

We wish to highlight that in view of the proposed Offer, our Company filed a draft red herring prospectus of the Company dated March 21, 2023 ("DRHP") with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), BSE Limited and National Stock Exchange Limited ("Stock Exchanges") on March 21, 2023, in connection with the Offer, disclosing inter alia, the intention of the Company to undertake an issuance of Equity Shares on a private placement basis, for cash consideration aggregating up to ₹ 1,500 million through a private placement, preferential offer or any other method as may be permitted under applicable law to any person(s), at its discretion, prior to the filing of the Red Herring Prospectus with the RoC ("Pre-IPO Placement").

Pursuant to the share purchase agreement dated May 18, 2023 ("SPA"), certain Promoters of our Company, SBFC Holdings Pte. Ltd, Arpwood Partners Investment Advisors LLP, Arpwood Capital Private Limited and Eight45 Services LLP have sold an aggregate of 61,818,181 Equity Shares to the entities mentioned below:

No. of Equity Shares

Respective Purchase Consideration (at

Date of transfer

Name of acquirer

			INR 55 per Equity Share or in USD 0.67 per Equity Shares)	
SBFC Holdings Pte. Ltd	Amansa Investments Ltd	13,636,364	USD 9,115,936.72	May 23, 2023
SBFC Holdings Pte. Ltd	Malabar Select Fund	3,636,364	USD 2,430,916.64	May 23, 2023
SBFC Holdings Pte. Ltd	Steadview Capital Mauritius Limited	8,181,818	USD 5,469,561.77	May 23, 2023
Arpwood Partners Investment Advisors LLP	Steadview Capital Mauritius Limited	10,000,000	INR 550,000,000	May 23, 2023
Arpwood Partners Investment Advisors LLP	Malabar India Fund Limited	6,909,091	INR 380,000,005	May 23, 2023
Arpwood Partners Investment Advisors LLP	Malabar Midcap Fund	1,259,553	INR 69,275,415	May 23, 2023
Arpwood Capital Private Limited	Dovetail Global Fund PCC - Paragon Partners Equity Fund	1,454,545	INR 79,999,975	June 26, 2023
Arpwood Capital Private Limited	Siddharth Parekh	264,070	INR 14,523,850	May 23, 2023
Arpwood Capital Private Limited	Paragon Partners Equity Fund	363,636	INR 19,999,980	May 23, 2023
Arpwood Capital Private Limited	Malabar Midcap Fund	2,376,811	INR 130,724,605	May 23, 2023
Eight45 Services LLP	Massachusetts Institute of Technology	13,636,363	INR 749,999,965	May 23, 2023
Eight45 Services LLP	Siddharth Parekh	99,566	INR 5,476,130	May 23, 2023
Total		61,818,181		- 25 TA

Pursuant to the above transfers:

Name of selling shareholder

- the shareholding of SBFC Holdings Pte. Ltd has decreased from 657,040,000 Equity Shares aggregating to 73.25% of the total paid-up Equity Share capital of the Company to 631,585,454 Equity Shares aggregating to 68.33% of the total paid-up Equity Share capital of the Company, resulting in 4.92% change in shareholding percentage of SBFC Holdings Pte. Ltd.;
- the shareholding of Arpwood Partners Investment Advisors LLP has decreased from 122,217,177 Equity Shares aggregating to 13.62% of the total paid-up Equity Share capital of the Company to 104,048,533 Equity Shares aggregating to 11.26% of the total paid-up Equity Share capital of the Company, resulting in 2.36% change in shareholding percentage of Arpwood Partners Investment Advisors LLP;
- the shareholding of Arpwood Capital Private Limited has decreased from 29,995,300 Equity Shares aggregating to 3.34% of the total paid-up Equity Share capital of the Company to 25,536,238 Equity Shares aggregating to 2.76% of the total paid-up Equity Share capital of the Company, resulting in 0.58% change in shareholding percentage of Arpwood Capital Private Limited; and
- the shareholding of Eight 45 Services LLP has decreased from 24,272,805 Equity Shares aggregating to 2.71% of the total paid-up Equity Share capital of the Company to 10,536,876 Equity Shares aggregating to 1.14% of the total paid-up Equity Share capital of the Company, resulting in 1.57% change in shareholding percentage of Eight45 Services LLP.

In addition to the SPA, the Pre-IPO Placement was undertaken by the Company through the share subscription agreement dated May 18, 2023 ("SSA"), as mentioned below: Name of Allottee Purchase Consideration (at ₹ 55 per Equity Share)

(tarrie of Priorite)	ito. or Equity orieros	r di citade consideration (at v do per Equity citate)	Date of another
Amansa Investments Ltd	27,272,727	₹ 1,499,999,985	May 23, 2023
As a result of the Pre-IPO Placement and the transfer pure	suant to the SPA, Amansa Investments Ltd cumulat	tively acquired a shareholding of 40,909,091 Equity Shares aggregating to 4.4	3% of the total paid-up Equity Share
capital of the Company.			

The consideration required to be paid by all the acquirers to the selling shareholders, for the purchase of the Equity Shares (as mentioned above) has been completed. Further, we confirm that except for Malabar India Fund Limited, Malabar Select Fund and Malabar Midcap Fund, who were existing shareholders of our Company prior to the SPA, none of the acquirers and allottees (as listed

above) are in any manner connected with our Company, our Promoters, the Promoter Group, Directors or KMPs of our Company, nor with the directors and KMPs of our Subsidiary. Please note that our Company does not have any group company.

The disclosures regarding the Pre-IPO placement and secondary transfers shall be updated in the RHP and Prospectus, as applicable. All capitalized terms used herein and not defined have meanings ascribed to such terms in the DRHP.

1 ICICI Securities

**ICICI Securities Limited** ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100

E-mail: sbfc.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance E-mail: customercare@icicisecurities.com Contact person: Sameer Purohit/ Sumit Singh

SEBI Registration No: INM000011179

**AXIS CAPITAL** Axis Capital Limited

1" Floor, Axis House,

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

C-2, Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: sbfc.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance E-mail:

complaints@axiscap.in Contact person: Mayuri Arya/Harish Patel SEBI Registration No: INM000012029

kotak\*

Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 Maharashtra, India Tel: +91 22 4336 0000 Website: https://investmentbank.kotak.com E-mail: sbfcfinance.ipo@kotak.com Investor Grievance E-mail: kmccredressal@kotak.com Contact Person: Ganesh Rane

SEBI Registration No.: INM000008704

Kotak Mahindra Capital Company Limited KFin Technologies Limited Selenium, Tower-B, Plot 31 & 32, Financial District, 1" Floor, 27 BKC, Plot No. 27, "G" Block Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddi 500 032,

> Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 / 7961 1000 E-mail: Sbfc.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: M. Muralikrishna

REGISTRAR TO THE OFFER

SEBI Registration No: INR000000221 For SBFC FINANCE LIMITED On behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: July 8, 2023

Company Secretary and Compliance Officer SBFC FINANCE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated March 21, 2023 with SEBI. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, respectively and is available on the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com; Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in and Kotak Mahindra Capital Company Limited at https://investmentbank.kotak.com. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page

Disclaimer Clause of RBI: The Company has a valid certificate of registration dated October 19, 2022 issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinion expressed by the Company and for the repayment of deposits/discharge of liabilities by the Company.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and (a) only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and referred to as "U.S. QIBs") in transactions exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act, (b) QPs, as defined in Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act, and (b) outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

financialexp.epap.in

Date: July 09, 2023

Place: Pune

Jitendra Divgi **Managing Director** 



Jay Mistry

New Delhi

# दक्षिण रेलवे

जनसता

## ई-निविदा सूचना

ार्णनाताचा ब्रान्नाचार जाक्कार्यसम्बद्ध वस्ताव्य र प्रकारता का श्रव र फर्मों से अनुरोध है कि https://www.ireps.gov.in →लॉगिन>ईटिंडर-7 गुड्स एंड सर्विसेज (नया) पर लॉग इन कर और टेंडर के सामने वाली निविद हेतु बोली लगाएं। मैनुअल कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र.सं.	निविदा क्रमांक	विवरण	नियत तारीख
1	95235326A	डेल्टा 'आई'टाइप उच्च प्रतिरोधक दोष चयनात्मक रिले	18.07.2023

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंघक, त्रिची-620 001

## Follow us on : twitter.com/GMSRailway

### (गति शक्ति इकाई ) :एसआर-टीवीसी-जीएसयू-एसएनटी / 23-24/07, दिनांक 04.07.2023

भारत के राष्ट्रपति के लिए और जनकी ओर से मुख्य परियोजना प्रबंधक, गति शक्ति इकाई, दक्षिणी रेलवे, तिरुवनंतपुरम मंडल, तिरुवनंतपुरम—14 हारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ईं—निविदा आमंत्रित है।

क सं	निविदा सं	कार्य का नाम
1	TVC-GSU- SNT-23-24-01	टीबीसी मंडल में टीबीसी-कंपाईजे अनुमान में 3 एलसी गेटों पर मिनी-आईपीएस और ईएलढी का प्रावधान और आसन्न एलसी तक आईपीएस आपूर्ति का विस्तार।
2		टीवीसी मंडल के ईआरएस – केटीवाईएम/ एएलएलपी– कंवाईजे अनुमान में 5 एलसी गेटों पर मिनी–आईपीएस और ईएलडी का प्रावचान और आसन्न एलसी तक आईपीएस आपूर्ति का विस्तार।
3	TVC-GSU- SNT-23-24-03	टीवीसी मंत्रल के एसआरआर-ईआरएस —केटीवाईएम/एएलपी — केवाईजे अनुमाग में ६ एलसी गेटों पर मिनी-आईपीएस और ईएलखी का प्रावमान और आसन्न एलसी तक आईपीएस आपूर्ति का विस्तार।

<b>क्</b>	नकद मूल्य (बनुमानित) (ह.प. में )	वयाना जमा राशि (रु.)	निविदा प्राप्ति की संतिम तिबि	समापन अववि
1	1,45,36,104.07/-	2,22,700.00 /-	27.07.2023, 14.00 बजे	12 महीने
2	1,60,87,940.09/-	2,30,400.00/-	27.07.2023, 14.00 बजे	12 महीने
3	1,91,41,053.14/-	2,45,700.00/-	27.07.2023, 14.00 बजे	12 महीने
			reps.gov.in <b>पर उपलब्ध</b>	

# Follow us on : twitter.com/GMSRailway

# एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एगइवेट लिजिटेड क्वा तब, पूर्वंब सं. १३७, सेक्टर-४४, पुरुषांव – 122002, सुरुपाव

जारिक, आकारतालाजों ने एन्फोर एसीट रिकान्ट्रमान कोनी प्राहुनेट तिमिटेड (एन्फोर एकार आफ्रीस्ट्रा आकारतालाजों ने एन्फोर एकार आफ्रीस्ट्रा आफ्रीस्ट्रा अकारतालाजां ने एन्फोर एकार आफ्रीस्ट्रा आफ्रीस्ट्रा अकारतालां के प्राहुनेद्रिक्त एवं पूर्वनिर्धन कार प्रित्याती के प्राहुनेद्रिक्त एवं पूर्वनिर्धन कार प्रित्याती के प्राहुनेद्रिक्त एवं प्राहुनेद्रिक के प्राहुन कार प्राहुनेद्रिक के प्राहुन कार प्राहुन के प्राहुन क्षरकर्ता ने एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एन्व अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निम

1	भूठांड सं. बी–41, शंकर विहार एक्सटेंशन, दिल्ली अजमेर बाईपास, बी/एच मुरलीपुरा स्कीम सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान, अधिमापन 145.4 वर्ग गज, सीमायें :
ı	सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान, अधिमापन 145.4 वर्ग गज, सीमायें :
ı	पूर्व : सड़क 30 फुट, पश्चिम : दुकान, उत्तर : भूखंड सं. बी 40, दक्षिण : भूखंड सं. बी 42
1	Brief of the second section of the second sec

## ादमार्कः ०७-०७-२०२३ स्थानः जयपुर (शांचन कुमार) प्राचिक्त अधिक एन्कोर एशेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिम्नि

सार्वजनिक सूचना

किया नगीरों को हटाने के विश्वा पर विश्वा किया कार्या व्यवस्था। व्यवस्था निव्यस्थ्य की स्थान करनार्थ के करी स्थान कराव्यस्थ्य की स्थानिक विश्वास्थ्य की स्थान इस सुकत्व की प्रस्त कर कर की की की स्थान इस सुकत्व की प्रत्य करने के की ब्रेक्ट कर की व्यवस्था को दी गई है। इस प्रत्य विश्वास्थ्य के स्थानिक की हिम प्रस्तीक है। ये सकत्व की स्थानिक की होता सुकत्व है। ये सकत्व की स्थानिक की स्थान की तिथा से 15 है। ये सकत्व की स्थान की तिथा से 15 मंद्री हैं हिस्सी ना 1000 है में इस सुकता की तिथा से 15 हिसों के बीरात स्थानी तिथा सुकत्व में हैं।

हस्ता /-अभिशेक सरवेता विधि : 07.07.2023 निदेशक स्थान : नई दिल्ली DIN : 06613821

स्वार्थ में स्वार्थ में इस्तार्थ में इस्तार

जनता को यह मोटिस ये जाती है कि वह शर के सतक्ष कंपानी प्रतिनिक्त

### दक्षिण रेलवे

## ई-निविदा सचना संख्या ०६ एवं ०६-डीवाई सीई

- बब्ल्यूएस-पीईआर — 2023—24—ओटी , दिनांकः 04.08.2023 टपति के लिए और उनकी ओर से. डीवाई.सीई /ड भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी और से, क्रीवाई सीई, उन्हर्स्स / पिक्रेश, राईमि रंग्सरे, भेन्द्र-(अट्टार हामा से रिदेश स्थाप्याक्तुकुक में लिए व्यक्ति आसीच का साम सुरा (एनआईटी) के अनुसार मिमानिशिता कार्यों के लिए ई-मिश्रीय आमीचित है। मिश्रा रा सिंद्र आदेशन समर्थ के प्रकृत मिश्रियाओं / प्रकेतारों को गरित स्थाप्यांक्तुकुक पर गामाजित होमा होगा और केवल ऑनलाहन निविदार ही परिकार की जाएंगी। निविद्य गामाजित कार्यों कार्यों कार्यों के प्रकार के साम के साम से कहा के सेट-सिंग्स, डोसेट कार्ड कोर ओर के सेट-सिंग्स, डोसेट कार्ड कोर ओरडिट कार्ड के माध्यम से कई बेंब के सेट-सिंग्स, डोसेट कार्ड कोर ओरडिट कार्ड के माध्यम से की जानी माहिए।

### कार्य का नाम

ा एलडब्ल्यू, 'पीईआर - जी। 'बी। ने कारों का निमा एलडब्ल्यू, 'पीईआर - जी। 'बी। ने कारों का निमादन और सामग्रियों की आपूर्ति, जिसमें एलडब्ल्यू,' पीईआर.जीनल अनुबंधों के लिए 0107.2023 से 3008.2024 तक की अवधि के लिए पेरम्यू तोकों वस्त्र के अदर समी इमारता, पानी एवं सीकेच व्यवस्था और सड़कों को शामित किया गया है। 02. सीडब्ल्यू, 'पीईआर-सीडब्ल्यू, 'पीईआर में पानी टकी मरम्मत अनुमान में क्जी की महत्वपूर्ण सुरक्षा मरम्मत का प्रस्ताव।

अनुमानित नकद मूल्य (रु.)				माह में समापन की अववि	समापन खुलनें की तिथि @ 1430 बजे/143
निविदा सं	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05	11878393.44	209400.00	0.00	12	04.08.2023
06	993678.24	19900.00	0.00	03	04.08.2023

## Follow us on : twitter.com/GMSRailway

## प्रपत्र ए

अभन ए सार्वजनिक उद्घोषणा तथा दिवालिया मंडल (कॉपॉरट १ क्रिया) विनियमन, 2016 के विनिश

	Identify Money States ( Indian	n, 2010 to 1411411 0 to 010101				
		मिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ				
г	संबंधित चितरण					
	कॉर्पोरेट ऋषधारक का नाम	आइडिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड				
	कॉपीरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	09.12.2010				
П	वह प्राधिकरण निसके अंतर्गत कॉपीरेट ऋगधारक निगमित/पंजीकृत है	***				
ľ	कॉपीरेट पहचान संख्या/कॉपीरेट ऋगधारक का लिमिटेड लाएविलिटी पहचान संख्या					
П	प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता					
П	कॉपेरिट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि					
	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि					
ľ	कार्यरत है	IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608				
П	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का पता एवं ईमेलः	इमेल : iprakeshbhatia@gmail.com				
П	लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता : 22, 1 ला तल, बलदेव पार्क, दिल्ली-110051 ईमेल : cirp.ideabuilderspl@gmail.com				
11	दावे जमा करने की ऑतम तिथि	22.07.2023				
ı	क्रेडीटर का वर्ग बंदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया					
13		<ol> <li>श्री संवम गोयल, पंजी. सं. IBBI/IPA-002/II</li> </ol>				
ш	में कार्व करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी					
П	प्रफिरनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	<ol> <li>श्री शकेश कुमार जैन, पंजी. सं. IBBI/IPA-002/II N00053/2017-18/10105</li> </ol>				

NO0053/2017-18/10105 3. भीम सेन गोशल पंजी: सं. IBBI/IPA-002/IP-N00726/2018 2019/12216 वेब लिक: https://ibbi.gov.in/en/home/download

आ) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है
 एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 5.7.2023 को आइडिय

एलहुदार पूर्वभा किया जात है कि उन्हणन कम्मानी विधि अधिकरण, न 5.7,2023 को आहंदिया विल्डली अप्रिटेंत विदेशित के प्रति में के किया है उन्होंकियों अस्तात प्रश्निक मुक्त करने का अदिवंद रिवार है। अदेश को जानकारी आहंत्याची को 5.7,2023 को मिली एलहुदारा आहंदिया विश्वदंद आहंदिद सिमिटेट के के कीटरों को निर्देश दिया जात है कि प्रीविष्ट 1, 10 में चिन्ह एसे शतीय प्रस्ताव प्रतिकासन के प्राप्त 22.7,2023 को वा उन्हों पूर्व प्राप्त के साथ अपने दाने का का स्वार्ध में अपना के हाथ अपने दाने का का स्वर्ण के साथ अपने दाने का का स्वर्ण के साथ अपने दाने का का स्वर्ण के साथ अपने दाने का सकते हैं। है। अन्य पाके के कीटर्स के प्रस्त 22,7023 को स्वर्ण के स्वर्ण के साथ अपने दाने का का स्वर्ण के साथ अपने दाने का साथ अपने साथ अपन

अरान दाव जमा कर सकते हां। अर्थित दां ने के सामित्र के सामित्र किसी वर्ग से संबंधित विशोध केरीटर प्रधन सीए में वर्ग होम बादसं के प्रातिकृत प्रतिविधि के रूप में सार्थ करते के दिये प्रतिविद्ध से 15 के समक्ष सूचीवद्ध तीन दम्पार्थियों प्रतिविद्ध केरी हमें प्रतिविधित की अराम प्रदेश को दार्थियों दाये का गतत अपया आमक प्रमाण जमा करने पर देंडित किया जा सकता है।

राकश भारत अंतरिस प्रस्ताव क्या आइडिया बिल्डसं प्राईवेट लिमिटेड पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608

# PEARL GLÔBAL

# पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएमः L74890DL1989PLC038849 पंजीकृत कार्यालयः सी-17/1. पश्चिमी मार्गः वसत् विहारः नई दिल्ली–110057 कोर्पोरेट कार्यालयः स्वितः न 5, सेवरल-2, मुकामा—12201 (हरियणा) टेलीः 0124–465100) ई-मेलः investor.pgii@peariglobal.com

# 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई—वोटिंग की जानकारी

# एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि

ई—वोटिंग आरम्भ तथा समाप्त होने की तिथि एवं समयः

शुक्रवार, 28 जुलाई 2023 (प्रात: 09.00 बजे)

जारण कुम्पार के पुतार क्रा पुतार क्रा क्रांत क्रां

रा बाद करना के पात्र कारा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजीएम की सूकना के प्रेषण के परचात् शेवरों का अधिग्रहण किया हो तथा कम्पनी के सदस्य बने हो ए कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 24 जुलाई, 2023 को शेवरों की प्रतिरक्षित रखते हो, वे एजीएम की सूचना में उदिसक्षित रिमोट ई-चोटिंग तथा एजीएम में ई-चोटिंग के निर्देशों का पासन करके अपने बोट डाल सकते हैं।

यदि श्रेयरावारणे/सहस्यों के पास ई-वॉटिंग से सम्विधित कोई प्रस्त हैं, तो जान www.evoling.nsdl.com, ये जाउनतीक अनुष्या में प्रवास्त्र सेरावारकों होतु फीकोटर्स जासक क्षेत्रमाना (मि.A) एवं ग्रेसवारकों हेतु ई-वॉटिंग कुठ मिनुक्रास संदिति कर सकते हैं अध्याद दर्ज-800 700 (एवं 22-240) 700 पर संबंध के अध्या सुची प्रकार को evoling@ndl.co.in पर अनुरोध में जे अथवा सहस्य कम्मणी को investor.gaji@peariolobal.com पर सिक

कते पर्ल ग्लोबल इंडस्टीज लिमिटेड

हस्तादार/-शिल्पा बुधिया कम्पनी सविव एसीएस-23564 दक्षिण रेलवे

# सलेम मंडल में ई-नीलामी

s के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, मंडल रेलवे प्रकंपक (वाणिज्य), सलेम मंडल, र t, सलेम – 656005 द्वारा गीचे दिए गए विवरण के अनुसार सलेम मंडल में एसएलआर कोण पर देने, प्रवार अनुकंपों और पार्किंग अनुकंपों के लिए ई-गीलामी आमंत्रित किया जाता है।

w.e.	६-साक्षामा कटलाल लाखा	बालामा आरभ ।ताय एव समय
1	SA-SLR-05-23	07.07.2023 को 15.30 बजे
2	SA-LOCOS-5-2706	13.07.2023 की 15.00 बजी
3	SA-VPS-09-2023	14.07.2023 की 15.30 बजी
य सभी	विवरण वेबसाइट -www.ireps.gov.in	के नीलामी टैब में देखे जा सकते

# 'प्रिय ऐल यात्रियों। जब तक वापातकासीन स्थिति न हो, ट्रेन में अजार्ग घेन को न खीचें

Follow us on : wtwitter.com/GMSRailway

## दक्षिण रेलवे

अंबाद सं. €.04/2023 भी आपूर्ति के लिए निविद्य सूचाना फर्नों से अनुरोध है कि ¶http://ireps\_gov.ia-logino-E.T.cnder-goods & services (new पर त्याँ पत्र करों और निम्नोसिंदिका निविद्याओं के सामने चाती निविद्या हेतु बोती लगाएं इन निविद्याओं के पितृत्व कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा बंद हो का समय 1430 बजे हैं।

क्र. सं.	निविदा नं.	भंडारों का संबिप्त विवरण	मात्रा	देय तिथि
1	61235136	ट्रैक फीड बैटरी चार्जर के लिए घटक	2000 SETS	21.07.2023
2	61235159	डिजिटल माइक्रो ओएच एम मीटर और डिजिटल वोल्टमीटर	600 SETS	21.07.2023
3	61235162	ऑटो ट्रांसफार्मर (वैरियक) खुले प्रकार और ट्रांसफार्मर		24.07.2023
4	61235175	एफआरपी सड़क घेतावनी सिग्नल यूनिट	150 SETS	31.07.2023

कृपया घ्यान दें कि केवल आईआरईपीएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन कोटेश ही स्वीकार किए जाएंगे और ऑफर डिजिटल रूप से हस्ताबरित होने चाहिए।

# उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, सिज्जल स्टोर्स डिपो, पोदनूर - 641023

# Follow us on : twitter.com/GMSRailway ाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंग्र लिपिटेड प्रेंक्स कर्मन: १४वी कीय. एक १. फीन्सूस क्रिक्स कर, प्रकार कर पर, केस प्रकार कर्मन: १४वी कीय. एक १. फीन्सूस क्रिक्स कर, प्रकार कर पर, केस

नियम a के बाधा परिता धारा 140) के तहता प्रत्य शामिश्री का प्रयोग करने सीचे वीर्ण के वा करना कर सिंधा के प्राथम तीर पर जनता को, संपत्ति के साथ सीता न करने सोनावन दी जाती के प्रता संतीत के साथ किसी भी तरह का जेन्द्रेन टाटा केविटल का प्रवृत्ति हिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट गरिंद, उसके तथा उस पर ज्याद और मंत्रा यह तथा केविट को हमाने प्रता जुल्ह, जहारा आहीं के स्थाप के अंकिन प्रता के साथ मुनि परितारियों को मुनाने के लिए उसस्वा सम्पर्ध के संबंध में, अधिनियन की सात

ऋष चारा चंद्रवाः	बान्यदाक्करी (व्रॉ)/ कानूनी चारिखें/ कानूनी प्रदिनिवि (व्रॉ) का चान	चरित और गांग सूचना की शिक्षिः	क्षा विकि
9952202 & TCHHF0 352000 1000674 04	श्री एक्से नेहता एवं एक्से कुमा (ठमास्कर्ता के क्या में) और श्री परापाल नेहता और सीनती सारती एनी (सह-एक्सफर्ता)	ऋष्ण अनुबंध १९६२२०२ के अंतर्गत रू. २२,81,172/-एपं अनुबंध संस्था TCHHF0352000100067404 के तहत रू. 3,70,381-मानी कुल रू. 26,553 (धर्मीस ताख इक्षावन हजार पांच सी तिरयन रुपये मात्र)	06.07.2023

पारवर: राङ (२९ -६ ) | दिनांक:- ०९/०७/२०२३ स्वान:- करनास हरियाणा हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंग्र लिमिटेड

अंतर संख्या ई-13/203 औ आधूर्ति के लिए ई-तिविध्त सूचना गिमानिरितित ई-निविदार्ग आंद्रिआर्ट्यीएस वेस्साहर में प्रकाशित की गई है। घनों से अनुपोत हैं की से http://www.ires.govin-logins-DE-flack-goods services (गई) पर लीग इन करें और इन निविदाओं के लिए बोली लगाएं। इन निविदाओं के दिश मैनुकल केटेनन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी निविदाओं के बंद होने का समय 1430 घंटे हैं।

#P.41	ानावदा संख्या	Idatel	lada akid
1.	15230229A	सिलिकॉन आयरन राउंड	07/07/2023
2.	26232613	एओएच रिप्लेसमेंट किट	12/07/2023
3.	26232711	चुंबक वाल्व संयोजन	12/07/2023
4.	03225155	निर्माण के लिए दर अनुबंध	13/07/2023
5.	26230904	3 वर्ग मिमी / 750 वोल्ट सिंगल कोर	13/07/2023
6.	04231176	बुप्लेक्स चेक वाल्व	14/07/2023
7.	01230020A	पेंट इनेमल,	14/07/2023
8.	02235477	विक्लोकेनाक जेल	14/07/2023
9,	02235429	स्टेशइल पूर्व ऑपरेटिव शेगी किट.	14/07/2023
10.	06230181	यूटीएस मोनो कलर टिकट	17/07/2023
11.	11231038	उच्च क्षमता इंटर	17/07/2023
12.	11235006A	जोड़ रहित नालीदार तांबा	17/07/2023
13.	04230977	उच्च तन्यता वाला तंग ताला	18/07/2023
14.	26232341	सब किट आईओएच	18/07/2023
15.	68236046	सर्किट मॉक्यूल	18/07/2023
16.	68235954	मॉक्यूल सर्किट	18/07/2023
17.	78235873	योकेय इन	18/07/2023
18.	06235035	बेलो डक्ट	19/07/2023
19.	68236059	संपर्ककर्ता ए.सी	19/07/2023
20.	68236060	रिवच असेम्बली	19/07/2023
21.	68235955	मॉक्यूल सर्किट	19/07/2023
22.	06234313	एल्युमीनियम चेकर्ड शीट	20/07/2023
23.	11231033	110 वी के लिए पीसीबी नियंत्रक	20/07/2023
24.	78235724A	विजाइन, निर्माण	20/07/2023
25.	02235599	टाइटेनियम पॉली एक्सियल	21/07/2023
26.	02235597	पाली अश्रीय पेंच	21/07/2023
27.	02235598	बोन ग्रनुलेस 10CC	21/07/2023
28.	90235979	सीलबंद रखरखाव मुक्त वीआरएलए	21/07/2023
29.	90236290A	एल्सटॉम एएकटीसी	21/07/2023
30.	44230429	संशोपित इलास्टोमेरिक पैड	24/07/2023
31,	04230962	सेकॅडरी लेटरल डैम्पर	24/07/2023
32.	01234367	खुबानी पीला रंग	24/07/2023
33.	52231170	सजावटी धर्मोसेटिंग	24/07/2023
34.	52235548	बुल गियर	24/07/2023
35.	02235471	निवोलुमेब इंजेवशन	25/07/2023
36.	04230944	नियंत्रण मुजा	25/07/2023
37.	04231062	साइड बफर असेंबली का सेट	25/07/2023
38.	90235984	आपूर्ति, स्थापना	25/07/2023
39.	68235639	ब्रेक रिगिंग किट	25/07/2023
40.	52235545	बियरिंग रोलर	25/07/2023
41.	90236198	निर्मित और गैल्वेनाइण्ड	26/07/2023
42.	04230963	प्राथमिक ऊ/वीयर छैम्पर	27/07/2023
43.	90236188	हॉट एक्सल की आपूर्ति, निर्माण	27/07/2023
44.	53235223	एनेस्थीसिया कार्यस्थल	28/07/2023
45.	90235712	विजाइन, आपूर्ति, निर्माण	31/07/2023
46.	78235930	सेकॅडरी लेटरल डैम्पर	01/08/2023

प्रधान मुख्य सामाची प्रबं Follow us on : twitter.com/GMSRailway

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी खण्ड-पंचम, सिंक्षेवि श्रीकरणपुर

Indian - 160 - 160 | February - 1

tions afte Entitionises (artificts tead of 8 big entitions articles of 8 big Entitionises (after 1 big entition articles of 8 big Entitionises (after 1 big entit of 8 big entit 1 big entit of 1 big ent

সণ্	अनुसार अंतिम लामांश घोषित करने के अपने इरादे के बारे में नोटिस इस प्रकार दिया गया है: undflue fluore				
1.	यह तारीख जिस दिन लामांश वितरित किया जाना प्रस्तावित है।				
2.	उन लेनदारों की सूची जो उसकी राशि साहित लामांश के हकदार होंगे।	लेनदार का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ,घोषित किए जाने वाले प्रस्तायित लागांश की सांशि 82,92,586/— रुपये			
3.	लामांश के कितरण के लिए लेनदारों से अपेक्षित विवरण और ऐसे किवरण प्राप्त होने की अंतिम तिथि	जिन लेनदारों ने अभी तक अपने ऋण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें निर्धारित विकरण के साथ पर्शन एक में अपने दाये, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने होंगे।			
4.	अंतिम तिथि जब तक लेनदारों को दिवालियापन ट्रस्टी के साथ संपत्ति के खिलाफ अपना दावा स्थापित करना होगा, यदि पहले से नहीं किया गया है।				

ा दें: सबूत के स किसी भी अन्य

# दक्षिण रेलवे

# **ई-निषिदा सूचना संख्या पीजीटी/ओटी/21/2023 दिनांक: 05.07.2023** ा के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, वरिष्ठ

राष्ट्रपात क लिए आर उनका आर स, वारण्ड मडल वय/दक्षिणी रेलवे/पलक्कड़ द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पसकड मंडल: डिजीजनल इंजीनियर / पूर्व क्षेत्रमिवरर -अमृत भारत योजनाओं के तहत अंगदीपुरम और शोरनुर स्टेडनों पर नए 6 मीटर चीड़े एकओथी वनेविंटन प्सेटकॉर्म और दूसरी एंट्री का प्रावमान।	1053.88/-	6,76,900/-	27.07.2023	बारह
2	पतकड मंडल गिट्टी बनाए रखने वाली दीवार (क्षेस 1005 अप और डाउन / किमी 677/300-600, मी. सं. 1116अप और डाउन@किमी 781/000-400 और मी. सं. 1138 डाउन@किमी 781/000-100) सहित 5 प्रमुख पुत्र पहुंच को मजबूत करना।	94.94/-	1,89,900/-	07.08.2023	छह
3	पसकड मंडल -शोरानूर कोजीकोड - गति को 130 किमी प्रति घंटे 81 तक बढ़ाने के तिए ट्रैक और मोडों की संक्रमण संबाई बढ़ाने पर ध्यान दें। (अनुलन्नक के अंतर्गत वड़ों की सुबी)	938.67/-	6,19,300/-	16.08.2023	बारह
4	पतकड मंडल- कोजीकोड -कन्यूर- गति को 130 किमी प्रति घंटे 84 संख्याएं तक बढ़ाने के लिए ट्रैक और वडारों की संक्रमण संबाई बढ़ाने पर ध्यान चें -(अनुलग्नकों के तहत वड़ा की सूची)	959.03/-	6,29,500 /-	16.08.2023	बारह
5	पतकड मंडल - कन्मूर-कल्सरमोड गित को 130 किमी प्रति घंटे 85 संख्यारं तक बढ़ाने के सिए ट्रैक और वक्षों की संक्रमण संबाई बढ़ाने पर ध्यान यें - (अनुसम्मकों के तहत वक्र की सुधी)	990.45/-	6,45,200/-	16.08.2023	बारह
6	पासकड मंडल — कन्नूर —कासरगोड मैंगलोर (यूपी) — गति को 130 किमी प्रति घंटे 38 संख्याएं तक बढ़ाने के लिए ट्रैंक और वकों की संक्रमण लंबाई बढ़ाने पर ध्यान दें — (अनुलग्नक के तहत वकों की सूपी)	432.37/-	3,66,200/-	16.08.2023	आर
7	मैगलोर- शीरानूर - मैगलोर मैं14 नग और शोरानूर में 4 इकड़याँ कर्मधारी क्वार्टरों की पुनः छता-और जिनमें बिजली की मरम्मत भी शामिल है।	74.10/-	1,48,200/-	07.08.2023	छह
8	सीनियर सेक्शन इंजीनियर / परमानंट वें वेस्ट / पोदनुर सेक्शन 2 सात के रिश् अग और ठाउन ताइनों (पोदनुर-वात्स्यार सेक्शन के बीच पाट सेक्शन के बीच में ट्रैक के किनारे कक भाग में वनस्पत्ती, जंगल, झाड़ियों को हटाना।	246.07/-	2,73,000/-	27.07.2023	चौबीस
9	पतकड डिवीजन - एससी 61.04/-क्रमांक 227 (विमी 731/00-100 पर), 283 (विमी 790/6-7 पर), 284 (विमी 851/4-5 पर) और 286 (विमी 853/9-854/0 पर) के बदले सबसे पर जात निकासी कुमार कार्यों और 1857, जानदिग, नामदान और परिय प्रावधीन, नामदान और	61.04/-	1,22,100/-	27.07.2023	घार
10	10. मैंगलोर -पुराने प्रकार IV 23, 28 एवं 30 / ए-बी. क्वाटरों के बदले प्रकार IV-04 इकाइयों का पुनर्निर्माण।	144.89/-	2,22,500/-	07.08.2023	नी
11	पसकार डिकीजन – सीनियर डिकीजनस इंजीनियर / परियम क्षेत्राभिकार – अपूत भारत योजना के ताहत स्टेडन के ताहत प्रयानुर, कससमीड और मैरातीर जंबरान पर प्रेटप्रधर्मी को जोड़ने वाले नए 6 मीटर चीड़े एकजीबी वर प्रकार।	1456.75/-	8,78,400/-	07.08.2023	बारह
12	शोरान्द्रकन्द्र संड - अमृत भारत योजना के तहत परचननगड़ी (2 संख्या), शोरप्ट्र (1 संख्या) विश्व (1 स्वया), वेतेक (2 संख्या) माहे (2 संख्या) और पय्यान्ट्र (3 संख्या) (कुत- 11)स्टेशनों पर लिपटों का प्राक्यान।	219.05/-	2,59,500/-	07.08.2023	बारह
13	प्रसाद क्रिकेशन-जार्ग संदेशकाशीए । स्वाप्त कर स्विकेश-जार्ग संदेशकाशीए । स्वाप्त कर स्विकेश कर अपने केश किया कर स्वाप्त केश कर किया कर स्वाप्त केश किया कर स्वाप्त केश किया कर स्वाप्त केश केश कर स्वाप्त केश केश कर स्वाप्त केश कर स्वाप्त केश कर स्वाप्त केश कर स्वाप्त केश केश कर स्वाप्त केश कर स्वाप्त केश कर स्वाप्त केश कर स्वाप्त केश	86.81/-	1,73,600/-	27.07.2023	बारह

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

कृते एंव हित मैडिवक रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड मधुनिता लालबहादुर चंद क : 09.07.2023 त : कर प्रो दिनांक : 09.07.2023 डायरेक्टर स्थान : उत्तर प्रदेश डिन: 09255444

स्थान : गुरूग्राम दिनांक : 08 जुलाई 2023 www readwhere com

आईसीएसआई सदस्यता संख्याः 000